

CP 1317
29-1-19

(2)

स्पीड-पोस्ट / महत्वपूर्ण
संख्या-सा0 1535 / सात-न्याय-1-18-69 / 2018

प्रेषक,

राकेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2-महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3-महाप्रशासक एवं शासकीय न्यासी, उ0प्र0, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4-विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 5-विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6-निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7-निबन्धक, राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 8-सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जवाहर भवन, लखनऊ।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय)

लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2019

विषय:-देश में डिजिटल लॉकर खुलवाने एवं उपयोगिता/सुविधा से आम जनमानस को सूचित/लाभान्वित कराने के लिये अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के पत्र संख्या-1299/78-1-2018-65आई0टी0/2017, दिनांक 03-10-2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों के क्रम में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
उप सचिव।

(8)

POSTED RG

30 JAN 2019

OSD(J)(Comp)'

✓CPC

संख्या: सी/015357/वि.प्र.प्रा.प-1-20-18
शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
संख्या:-1299/78-1-2018-65आई0टी0/2017

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

69/2018
5/1

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1

लखनऊ: दिनांक: 03 सितम्बर, 2018

विषय:- देश में डिजिटल लॉकर खुलवाने एवं उपयोगिता/सुविधा से आम जनमानस को सूचित/लाभान्वित कराने के लिये अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि डिजिटल लॉकर सिस्टम का उद्घाटन मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 01.07.2015 को किया गया। इस योजना के अन्तर्गत देश के प्रत्येक नागरिक को अपने से सम्बन्धित अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।

2- डिजिटल लॉकर सिस्टम का उपयोग कर नागरिक अपने सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों जैसे मार्क शीट्स, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र इत्यादि को डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुये दस्तावेजों के नष्ट होने/खो जाने की स्थिति में कमी लाता है। इस सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है।

3- डिजिटल लॉकर सिस्टम क्लाउड तकनीक पर आधारित डिजिटल माध्यम से जारी होने वाले प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने तथा प्रमाणीकरण/सत्यापन की व्यवस्था प्रदान करता है जिसके लाभ निम्नवत् है:-

- (i) इस योजना के अन्तर्गत अभिलेखों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की व्यवस्था है।
- (ii) यह सिस्टम मूल दस्तावेजों को साक्षात्कार इत्यादि के लिये साथ ले जाने, खो जाने, नष्ट हो जाने की स्थिति से आजादी प्रदान करता है।
- (iii) डिजिटल लॉकर सिस्टम के उपयोग से डाटा का संचरण एवं संचालन अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। साथ ही अभिलेख पूर्णतया सुरक्षित एवं गोपनीय रखे जाते हैं।

(iv) आवश्यकता पड़ने पर जारी करने वाले विभाग से रियल टाइम बेसिस पर प्रमाण पत्रों को सत्यापित किये जाने की व्यवस्था है जिसमें सम्बन्धित विभाग/अधिकारी को सत्यापन कार्य रिपोर्ट्स समय व धन की बचत के साथ-साथ कागज के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाते हुए सरकारी विभागों के प्रशासनिक प्रक्रिया में सुविधा होती है।

09-10-18
(इनेश कुमार सिंह, II)
प्रमुख सचिव,
प्याय एवं विधि परामर्श
उ0 प्र0 शासन

डाक्यूमेन्ट/प्रपत्रों के भौतिक प्रति की बाध्यता एवं कठिनाई, जारी करने वाले विभागों, प्रमाणित करने वाले विभागों के साथ-साथ आम जनमानस के लिये समाप्त होती है।
उत्तर प्रदेश में वर्तमान में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध 6.50 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्रों, राज्य परिषद व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा लगभग 4 लाख सर्टिफिकेट, प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 50,000 से अधिक सर्टिफिकेट को डिजिटल लॉकर पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इसी क्रम में प्रदेश के ऐसे सभी विभाग जोकि प्रमाण पत्रों को जारी कर रहे हैं एवं प्रमाण पत्रों को प्रमाणित/सत्यापित कर रहे हैं, उनको डिजिटल लॉकर सिस्टम के साथ (Push & Pull APIs पद्धति के माध्यम से) इन्टीग्रेटेड किया जाना है।

पञ्च
10/10/18